

MSIL: COS: NSE&BSE: 2021

10th February, 2021

Vice President General Manager

National Stock Exchange of India Limited Department of Corporate Services

"Exchange Plaza", Bandra- Kurla Complex BSE Limited

Bandra (E) Phiroze Jeejeebhoy Towers

Mumbai - 400 051 Dalal Street, Mumbai - 400 001

Sub: Newspaper Notice-Postal Ballot/ E-Voting

Dear Sir,

Please find attached herewith the copy of newspaper notice informing about the Postal Ballot Notice/ E-voting as published in the requisite newspaper as per the requirement of Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

Kindly take the same on record.

Thanking you,

Yours truly,

For Maruti Suzuki India Limited

Sanjeev Grover Vice President & Company Secretary

MARUTI SUZUKI INDIA LIMITED

Head Office:

Maruti Suzuki India Limited,

1, Nelson Mandela Road, Vasant Kunj,

New Delhi - 110070, India.

Tel: 011-46781000, Fax: 011-46150275/46150276

E-mail id: contact@maruti.co.in, www.marutisuzuki.com

Gurgaon Plant:

Maruti Suzuki India Limited,

Old Palam Gurgaon Road,

Gurgaon - 122015, Haryana, India.

Tel: 0124-2346721, Fax: 0124-2341304

Manesar Plant:

Maruti Suzuki India Limited,

Plot No.1, Phase - 3A, IMT Manesar,

Gurgaon - 122051, Haryana, India.

Tel: 0124-4884000, Fax: 0124-4884199

सार्वजनिक उद्घोषणा

[भारत दिवाला एवं दिवालिया मंडल (परिसमापन प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियमन 12(3) के साथ पठित विनियमन 31(2) ग्लोबलाइट इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड,

परिसमापन में. के स्टेकधारकों के ध्यानार्थ

भारत दिवाला एवं दिवालिया मंडल (परिसमापन प्रक्रिया) विनियमन. 2016 के विनियमन 31(2) के अनपालन में एतदद्वारा सचित किया जाता है कि ग्लोबलाइट इंडस्टीज प्राईवेट लिमिटेड. परिसमापन में (''कॉर्पोरेट ऋणधारक'') के स्टेकधारकों की सची परिसमापक द्वारा तैयार कर ली गई है जिसे 3 फरवरी, 2021 को माननीय राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, नई दिल्ली पीठ (''माननीय एनसीएलटी'') में दाखिल कर दिया गया है।

चुंकि, कॉर्पोरेट ऋणधारक की कोई कार्यरत वेबसाईट नहीं है, अतः परिसमापक द्वारा स्वीकृत दावे की राशि, उस सीमा जहां तक वे प्रतिभृत/अप्रतिभृत हैं, के सम्पूर्ण विवरणों, स्टेकधारकों तथा आंशिक रूप से एवं पूर्णतः निरस्त, यदि कोई हो, में स्वीकृत/निरस्त प्रमाणों विवरणों को दर्शाते हुए शेयरधारकों की सूची परिसमापक की अधोलिखित वेबसाईट "https://insolvencyandbankruptcy.in/public-announcement/globalite-industries-pvt-ltd/" पर देखी जा सकती है।

स्टेकधारकों को पनः सचित किया जाता है कि माननीय एनसीएलटी में दाखिल की गई स्टेकधारकों की सुची में प्रविष्टियों में कोई भी सुधार केवल माननीय एनसीएलटी में आवेदन दाखिल कर ही की जा सकती है।

स्थानः नई दिल्ली

तिथि: 9 फरवरी. 2021

हस्ता./-श्री काशी विस्वनाथन सिवरमण (परिसमापन ग्लोबलाइट इंडस्टीज प्राईवेट लिमिटेड. परिसमापन में

आईपी पंजीकरण सं. IBBI/IPA-001/IP-P00900/2017-2018/11497 ईमेलः sivarita68@yahoo.com, globalite@aaainsolvency.com

р нрв एचडीबी फाइनांसियल सर्विसेस लिमिटेड कब्जा सूचना पंजीकत कार्यालयः राधिका. 2रा तल. लॉ गार्डन रोड, नवरगपरा, अहमदाबाद, गुजरात, पिन कोड-380009 शाखा कार्यालयः एडीबी फाइनांसियल सर्विसेस लि., 3 पार्क स्ट्रीट रोड, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के ऊपर, पिंक सिटी पेट

पम्प के सामने, खासा कोठी, जयपुर, राजस्थान-3002001 जैसा कि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 (2002 के 64) के अंतर्गत एचडीबी फाइनांसियल सर्विसेस लिमिटेड के प्राधिकत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सचना नीचे वर्णित रूप में जारी कर संबंधित ऋणधारक को उक्त सुचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सुचना में वर्णित राशि के साथ भुगतान की वास्तविक तिथि तक सभी लागतों, चार्जेज, खर्चे आदि को वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

उक्त ऋणधारक/ सह-ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे. अतः एतदहारा ऋणधारक सह-ऋणधारक तथा आम जनता को सचित किया जाता है कि यहां नीचे वर्णित रूप में अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने नीचे वर्णित तिथि को यहां नीचे वर्णित संपत्ति का सांकेतिक कब्जा

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतदद्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित संपत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन संपत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय संबंधित तिथि से आगे के ब्याज, लागतों एवं चार्जेज के साथ उसमें निर्दिष्ट राशि के लिए एचडीबी फाइनांसियल सर्विसेस लिमिटेड के

ऋणधारक तथा सह-ऋणधारकों/ गारन्टरों का नाम, ऋण खाता संख्या, ऋण राशि, प्रतिभित का विवरण मांग सुचना तिथि तथा कब्जा की तिथि का विवरण इस प्रकार है:

्रकम 1) ऋणधारक/ सह-ऋणधारक/ गारन्टर का नाम एवं पता: 2) ऋण खाता संख्या: 3) ऋण राशि: 🛮 सं. 🛮 4) प्रतिभृतियों का विवरण; 5) मांग सुचना तिथि; 6) आईएनआर में मांग की गई राशि; 7)

1. ऋणधारक/ सह-ऋणधारक/ गारन्टर का नाम एवं पताः सीताराम शर्मा, भीमा शंकर रोड डेवलपर्स प्रा.लि., नागेश्वर डेवलपर्स प्राईवेट लि., गुलाब देवी, सोहन लाल शर्मा, सभी: प्लॉट एससी-35, (डी), स्कीम नारायण विहार, में वाई फेज-26, सेक्टर 52, अजमेर रोड, जयपुर, राजस्थान-302001, साथ हीं: शॉप नं. 25/26, सेक्टर नं. 5, वीरतेजई जी रोड, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान- 302020, साथ हीं: शॉप नं. 15, 16, 17, 21, 22, 23 एवं 24, सेक्टर 5, वीरतेजई जी रोड, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान- 302020, ऋण खाता सं. 751783 तथा 1378923, 3) ऋण राशिः रु. 30903205 (रुपये तीन करोड नौ लाख तीन हजार दो सौ पांच मात्र). ऋण खाता संख्याः ७५१७८३ द्वारा तथा रु. १०४६७५३८/- (रुपए एक करोड चार लाख सडसठ हजार पांच सौ अड़तीस मात्र), ऋण खाता सं. 1378923 द्वारा, 4) प्रतिभूति का विवरणः सम्पत्ति सं. 1: सम्पत्ति प्लॉट नं. एससी-35 (डी), स्कीम नारायण विहार वाई में, फेज-26, सेक्टर 52, अजमेर रोड, जयपुर, राजस्थान- 302006, माप 1100 वर्ग यार्डस, सम्पत्ति की चौहद्दीः उत्तरः रोड, पश्चिमः रोड, उत्तरः शॉप नं, 25, पर्वः रोड. सम्पत्ति सं. २: शॉप नं. २५. सेक्टर ५. मानसरोवर स्कीम. जयपर, राजस्थान- 302020. सम्पत्ति का एरिया 18 वर्ग मी. का सभी भाग तथा हिस्सा, सम्पत्ति सं. ३: शॉप नं. २६, सेक्टर नं. ५, वीर तेजाजी रोड, मानसरोवर स्कीम, जयपुर, राजस्थान- 302020, सम्पत्ति का एरिया- 18 वर्ग मी., सम्पत्ति सं. ४: शॉप नं. 15, 16, 17, 21, 22, 23 एवं 24, सेक्टर 5, वीरतेजा जी रोड, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान- 302020, सम्पत्ति का एरिया 18 वर्ग मी., सभी शॉप (शॉप नं. 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24 का) 5) मांग सूचना तिथिः 26.9.2020, 6) मांग की गई राशिः रु. 3,59,42,442.9/- (रुपये तीन करोड़ उन्सठ लाख बयालिस हजार चार सौ बयालिस एवं पैसे नौ मात्र) 26.9.2020 को तथा अनुषांगिक खर्चे, लागत, चार्जेज आदि के साथ वास्तविक वसुली तक आगे का अनुबंधित ब्याज। 7) कब्जा की तिथिः 5.2.2021

ऋणधारक का ध्यान प्रतिभत परिसंपत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकष्ट की जाती है।

किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण के लिए कृपया सम्पर्क करें: श्री प्रशांत राठौर: 9928818000 एट जीतेन्द्र सिंह 09983291777, एडीबी फाइनांसियल सर्विसेस लि., 3 पार्क स्ट्रीट रोड, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के ऊपर, पिंक सिटी पेट्रोल पम्प के सामने, खासा कोठी, जयपुर, राजस्थान-3002001

एचडीबी फाइनांसियल सर्विसेस लिमिटेड के लिए स्थानः जयपुर तिथि: 9.2.2021 प्राधिकृत अधिकारी

MARUTI & SUZUKI मारूति सुजुकी इंडिया लिमिटेड

पंजी. कार्या.: प्लॉट नं. 1, नेल्सन मंडेला रोड, वसंत कूंज, नई दिल्ली–110070 फोन: +91 (11) 46781000, फेक्स: +91 (11) 46150275

www.marutisuzuki.com, investor@maruti.co.in ढाक मतपत्र/ई-बोटिंग की सूचना

सदस्यों को एतदद्वारा सुचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 108. धारा 110 और अन्य लाग प्रावधान, यदि कोई हो, के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) निवम, 2014 ("निवम") के निवम 20 एवं निवम 22 के प्रावधानों तथा ई-वोटिंग के माध्यम से आम बैठक के आयोजन/डाक मतपत्र के आयोजन के लिए कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ("एमसीए") द्वारा जारी किये गये निर्धारित दिशानिर्देशों तथा संगत परिपत्रों, सेबी (सूचीयन बाध्यताएं एवं प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 ("सूचीवन विनियम"), भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी किये गये सचिवीय मानक-2 तथा अन्य लागू नियमों एवं विनियमों, यदि कोई हो, समय-समय पर उस पर लागू कोई सांविधिक संशोधन(नों) या अधिनियमन(नों) सहित के अनुपालन में कंपनी ने उन सभी सदस्यों को केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से व्याख्यात्मक विवरण के साथ डाक मतपत्र सूचना दिनांक 28 जनवरी, 2021 ("सूचना") भेजने का कार्य 9 फरवरी, 2021 को पूरा कर लिया है जिनके ई-मेल पते 5 फरवरी, 2021 ("कट-ऑफ तिथा") को अपने विपॉजिटरी प्रतिमागी ("वीपी") वा

केंफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड ("केंफिन"), कंपनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट के

पास पंजीकृत हैं। कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण एमसीए ने केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सुबना भेजकर डाक मतपत्र के आयोजन के लिए कम्पनी को अनुमति दी है। तदनुसार, डाक मतपत्र प्रपत्र के साथ स्चना की भौतिक प्रतियां और पूर्व-भूग्तेय व्यवसाय उत्तर लिफाफा इस टाक मतपत्र के लिए सदस्यों

को नहीं मेजा जाएगा। सदस्वों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि:

(क) सूचना में निर्धारित किये गये अनुसार "कंपनी के संस्था के बहिनियम के उद्देश्य उपखण्ड में संशोधन" के संबंध में प्रस्ताव को केवल केफिन द्वारा उपलब्ध कराए गए रिमोट ई-वोटिंग प्लेटफार्म के माध्यम से केवल इलेक्टॉनिक पद्धति ("रिमोट ई-बोटिंग") द्वारा वोटिंग के माध्यम से डाक गतपत्र के द्वारा निष्पादित किया जाना है।

(स्त) रिमोट ई-वोटिंग जवधि सोमवार, 15 फरवरी, 2021 (प्रात: 9.00 बजे) प्रारंग होगी। (ग) रिमोट ई-वोटिंग अवधि मंगलवार. 16 मार्च, 2021 (सायं 5.00 बजे) समाप्त होगी। कथित अवधि की समाप्ति के बाद केफिन द्वारा रिमोट ई-वोटिंग की सर्विधा हटा ली जाएगी।

(घ) इस अवधि के दौरान केवल वे सदस्यगण जिनका नाम कट-ऑफ तिथि अर्थात शुक्रवार, 5 करवरी. 2021 को सदस्यों के रजिस्टर या डिपॉजिटरीज द्वारा तैयार किये गये लामार्थी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज होगा, केवल वे ही रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट देने

ऐसा व्यक्ति जो कथित कट-ऑफ तिथि को कंपनी का सदस्य नहीं है. वह वोट देने का हकदार नहीं होगा तथा वह इस सुबना को केवल जानकारी का प्रयोजन मात्र समझे।

(ङ) रिमोट ई-वोटिंग के संबंध में किसी भी पूछताछ/शिकायत के लिए सदस्यगण ई-मेलः einward.ris@kfintech.com या evoling@kfintech.com पर लिख सकते हैं या केफिन के पास नीचे दिये गये अनुसार सम्पर्क कर सकते हैं:

श्री राज कुमार काले, वरिष्ठ प्रबंधक, केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, टॉवर-बी, प्लॉट 31-32, सेलेनियम बिल्डिंग, फाइनेंशियल ढिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुढा, गांचीबावली, हैदराबाद-500032, फोन नं. 040. 67162222 या टोल फ्री नं. 1-800-34-54-001। इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने संबंधित ढीपी के

पास अपना ई-मेल पता एवं मोबाइल नम्बर अपडेट करें। सदस्यगण नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन करके केफिन के पास अस्थाई रूप से अपना ई-मेल पता एवं मोबाइल नम्बर अपडेट करा सकते हैं: शिंक https://ris.kfintech.com/clientservices/postalballot/ को देखें।

कंपनी का नाम चुनें मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड

बीपीआईडी क्लाइंट आईडी (इलेक्टॉनिक प्रारूप में धारित शेयरों के मामले में) / फिजिकल फोलियो नं. (भौतिक प्रारूप में घारित शेयरों के मामले में) एवं स्थायी खाता संख्या ("पैन")

यदि शेयर मौतिक प्रारूप में धारित है, तथा पैन रिकार्ड में उपलब्ध नहीं है तो कृपया स्वयं द्वारा धारित शेयरों के संबंध में कोई एक शेवर प्रमाणपत्र सं. दर्ज करें। ई-मेल पता एवं मोबाइल नं. दर्ज करें।

सिस्टम दीपीआईदी क्लाइंट आईदी/फिजिकल फोलियो नं. एवं पैन/प्रमाणपत्र सं. जैसा भी

मामला हों के सत्यता की जांच करेगा और प्रमाणीकरण के लिए कथित मोबाइल नं. एवं ई-मेल पर्त पर एक ओटीपी भेजेगा। प्रमाणीकरण प्रक्रिया को पूरा करने के लिए एसएमएस एवं ई-मेल द्वारा भेजे गये ओटीपी की

दर्ज करें (कृपया नोट करें कि ओटीपी केवल 5 मिनट के लिए वैध रहेगा)।

यदि शेयर भौतिक प्रारूप में धारित हैं और पैन उपलब्ध नहीं है तो सिस्टम आपको अपने पैन की स्व-सत्यापित प्रति को अपलोड करने के लिए कहेगा।

सिस्टम आपको सचना तथा यजर आईडी एवं पासवर्ड के साथ रिमोट ई-वोटिंग दिशानिर्देशों को मेजने के प्रयोजन हेतु आपका ई-मेल पता कन्फर्म करेगा।

विकल्पतः सदस्यगण केफिन के पास अपना ई-मेल पता एवं मोबाइल नम्बर अस्थाई रूप से पंजीकत कराने के लिए अपना ई-मेल पता, मोबाइल नम्बर, पैन की स्व-सत्यापित प्रति तथा इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में धारित शेयरों के संबंध में क्लाइंट मास्टर कॉपी या भौतिक प्रारूप में घारित शेवरों के संबंध में शेवर प्रमाणपत्र का विवरण देते हुए प्रथम सदस्य द्वारा विधिवत

sinward.ris@kfinlech.com पर मेर्जे जिससे उनको इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोटिंग के लिए यूजर आईडी एवं पासवर्ड के साथ सुबना तथा रिमोट ई-बोटिंग दिशानिर्देश जारी किये जा सकें। सूचना कंपनी की वेबसाइट www.marulisuzuki.com; केफिन की वेबसाइट https://evoling.kfintech.com; नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.nseindia.com तथा बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com पर उपलब्ध है।

हस्ताक्षरित अपने अनुरोध पत्र की स्कैन की गई प्रति के साथ अपना अनुरोध ई-मेल

सूचना में निर्धारित प्रस्ताव के संबंध में घोषित किये गये परिणाम के साथ पर्यवेदाक की रिपोर्ट बृहस्पतिवार, 18 मार्च, 2021 को या उससे पूर्व स्टॉक एक्सचेंजों को मेजा जाएगा तथा इसे कंपनी

की वेबसाइट www.marufisuzuki.com एवं केफिन की वेबसाइट https://evoting.kfintech.com/public/Downloads.aspx पर भी अपलोड किये जाएगा। कथित परिणामों को कंपनी के पंजीकृत एवं कॉर्पोरेट कार्यालय में भी प्रदर्शित किया जाएगा। माकति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के लिये

संजीव ग्रोबर

इन्टेक कैपिटल लिमिटेड मांग सचना का प्रकाशन

वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना

1. मै. स्टार फैबपैक पा. लि. (ऋणधारक) द्वारा उसके निदेशक श्री हेमन्त रूपचंद सेथिया. बी-11/2, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-II, ओखला, नई दिल्ली-110020 साथ हीं: बी-144, सेक्टर 63, नोएडा, उ.प्र.-201301, 2) श्री हेमन्त रूपचंद सेथिया (गारन्टर/निदेशक), ए-701, आशीर्वाद कॉम्प्लैक्स, उमाभवन के निकट, भाटर रोड, सुरत, गुजरात-395001, 3) श्री निर्मल बाफना (गान्टर/निदेशक), के-40, दूसरा तल, कैलाश कॉलोनी, नई दिल्ली-110048, 4) मै. कलरमैजिक्स प्रिन्ट प्रा.लि. (गारन्टर) बी-11/2 ओखला इंडस्टियल एरिया, फेज-II, ओखला, नई दिल्ली-110020, 5) श्री भरत कमा अधिकारी (निदेशक) के-40, कैलाश कॉलोनी, नई दिल्ली-110048, 6) श्री हलाश चन्द सैनी, निदेशक, एच.नं.ए-98/3, संजय कॉलोनी, ओखला फेज-II, दिल्ली-110020, 7 श्री अनिल कमार तिवारी (निदेशक), प्लॉन नं. 119-ए. ख. नं. 5/16, पीपी नं.-100, प्रेम विहार, नजफगढ़, दिल्ली-110043, 8) श्री जगत भूषण शर्मा (निदेशक). डी-423-बी. लाजपत नगर, साहिबाबाद, गाजियाबाद, उ.प्र.-201005, 9) श्री विजय सुनेजा (निदेशक) 7-ए, नवसेना अपार्टमेन्ट, वेस्ट एन्क्लेव, पीतमपुरा, दिल्ली-110034 को स्पीड पोस्ट द्वारा 23.01.2021 को भेजी गई मांग सूचना तिथि 20.01.2021

विषय: इन्टेक कैपिटल लिमिटेड में ऋण खाता सं. LNNHP03514-150005276 तिथि 31.01.2015 तथा LNNHP01414-150003789 तिथि 15.05.2014 आप ने ऋण को वापस लौटाने में चुक की है तथा इसीलिये इन्टेक कैपिटल लिमिटेड/सिडबी

में प्रबंधित आपकी ऋणखाताओं को 31.12.2016 को गैर-प्रचालन परिसम्पत्ति (एनपीए) घोषित किया गया है तथा 31.12.2020 को रु. 59.54.363/- (रुपये उन्सठ लाख चौवन हजार तीन सौ तिडेसठ मात्र) की राशि बकाया है।

इन्टेक कैपिटल लि. ने 23.01.2021 को अधिनियम के अंतर्गत सूचना तिथि 20.01.2021 जारी कर आपको 31.12.2020 को रु. 59.54.363/- (रुपये उन्सट लाख चौवन हजा तीन सौ तिड़ेसठ मात्र) की राशि वापस लौटाने का निर्देश दिया। आपको निर्देश दिया जाता है कि इस सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर रु. 59,54,363/-

(रुपये उन्सठ लाख चौवन हजार तीन सौ तिड़ेसठ मात्र) की राशि का भुगतान करें जिसमें विफल होने पर इन्टेक कैपिटल लिमिटेड यहां नीचे अनुसुची में दी गई प्रतिभृत परिसम्पत्तियों के विरुद्ध प्रतिभृत हित के प्रवर्त्तन के अपने किसी भी अधिकारों का प्रयोग करने के लिये बाध्य होगा। यह सचना इन्टेक कैपिटल लिमिटेड को उपलब्ध किसी अन्य अधिकारों के प्रति पर्वाग्रह रहित है। अनुसूची:

परिसम्पत्तियों जिसमें प्रतिभृति हित निर्मित है, का विशिष्ट विवरण नीचे वर्णित है हाइपोथेकेटेड परिसम्पत्तियाँ: 1) मै. स्टार फैबपैक प्रा. लि. बी-144, सेक्टर-63, नोएडा, उ.प्र.-201301 में संस्थापित 1) कोमोरी एल 240 ऑफ सेट प्रिन्टिंग मशीन 1986 मॉडल 24" x 40" स्टेट 2 कलर, कोमरीमैटिक डैमोएनिंग एस पावडर स्प्रे, आईआर ड्रायर, 2 रॉयसी चिलर, ट्रान्सफोर्मर क्रम नं. 230, 2) ग्रोविंग मशीन तथा कॉर्नर पैस्टिंग मशीन, 3) हॉट फ्वॉयल स्टाम्पिंग एटैचमेन्ट 29" x 40" डाई कटिंग के लिये 4) बॉक्स फार्मिंग मशीन के साथ ग्लुइंग सिस्टम के साथ रिजिड बॉक्स मशीन

तिथि: 09.02.2021 प्राधिकृत अधिकारी स्थान: नई दिल्ली इन्टेक कैपिटल लि.

2. अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (कर, विशिष्ट

3. कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (19.56)

(विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों के बाद)

4. कर से बाद अवधि के लिए शद्ध लाभ/ (हानि)

(विशिष्ट एवं अथवा असाधारण मदों के बाद)

के बाद) लाभ/ (हानि) एवं अन्य व्यापक आय

अविध हेत कल व्यापक आय (अविध हेत (कर

7. आरक्षित (पूर्व वर्ष के अंकेक्षित तुलन पत्र में दर्शाई

8. आय प्रति शेयर (रु. 10/- प्रति का) (जारी तथा

निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किए गए।

गई पुनर्मूल्यांकन आरक्षितों के अतिरिक्त आरक्षित

अवरुद्ध प्रचालनों के लिए) (वार्षिकीकृत नहीं)

एवं/अथवा असाधारण मदों से पर्व)

(कर के बाद से शामिल)

6. प्रदत्त इक्विटी शेयर पुंजी

ख) तरलः

तिथि: 08.02.2021

स्थानः नर्ड दिल्ली

रीता फाइनांस एंड लीजिंग लिमिटेड

(पर्व में रीता होल्डिंग्स लिमिटेड विदित)

पंजी. कार्या.: 324 ए, IIIरा तल, अग्रवाल प्लाजा, सेक्टर-14, रोहिणी, नई दिल्ली-110085

ईमेलः ritaholdingsltd@gmail.com । वेबसाईटः www.ritaholdings.in । फोनः 011-45689444

CIN:L67120DL1981PLC011741

31 दिसम्बर, 2020 को समाप्त तिमाही के लिए अंकेक्षित

स्टैण्डएलॉन वित्तीय परिणाम के विवरण का सार

31.12.2020

(अंकेक्षित)

182.18

(1.09)

(1.09)

1) उपरोक्त विवरण सेबी (सचीयन दायित्व तथा अन्य उदघाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के

2) उपरोक्त परिणामों की ऑडिट कमिटी द्वारा समीक्षा की गई तथा 8 फरवरी, 2021 को आयोजित उनकी बैठक में

3) वित्तीय परिणामों को इंड-एएस नियमावली (यथा-संशोधित के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा

www.msei.in) तथा कम्पनी की वेबसाईट (www.ritaholdings.in) पर उपलब्ध हैं।

133 के अंतर्गत निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानक (इंड-एएस) के अनुसार तैयार किया गया है।

अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज में दाखिल की गई अंकेक्षित तिमाही वित्तीय परिणामों का संपर्ण प्रारूप का सार है

अंकेक्षित तिमाही वित्तीय परिणामों का संपूर्ण प्रारूप स्टाक एक्सचेंज की वेबसाईट (www.bseindia.com,

प्रचालनों से कुल आय 30724.53 12258.65 11302.95 अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (कर, अपवादात्मक और/व असाधारण मदों से पूर्व #) 400.53 227.92 55.92 कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (अपवादात्मक और/व असाधारण मदों के बाद #) 227.92 400.53 55.92 कर के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाम/(हानि) (अपवादात्मक और / व असाधारण मदों के बाद #) 162.92 300.53 30.92 अवधि के लिए कल व्यापक आय (अवधि के लिए लाम/(हानि) (कर के बाद) और अन्य व्यापक आय (कर के बाद) शामिल] 164.42 305.03 33.92 1265.64

मोदी नेचुरल्स लिमिटेड

पंजी. कार्यालवः 405, दीपाली बिल्डिंग, 92, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019

फोनः 011-41889999, ई-मेलः cs.mnl@modinaturals.org, वेबसाइटः www.modinaturals.com

(CIN: L15142DL1974PLC007349)

31.12.2020 को समाप्त विमाही और नौमाही के लिए

(क लाखों में, अन्यथा जबतक कहा न गया हो)

समाप्त 🤋

समाप्त 3

पिछले वर्ष में

समाप्त 3

महीनें के

0.27

अनिल मोदी

प्रबंध निवेशक

DIN: 00187078

स्टैंडअलोन अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों का विवरण

0.27 1. 09.02.2021 को आयोजित बैठक में उपरोक्त परिणामों की समीक्षा लेखा परीक्षा समिति द्वारा की गई है और निदेशक गंडल द्वारा अनुमोदित किया गया।

 सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियम, 2015 के विनियम 33 के अनुसार, स्टॉक एक्सचेंजों के साथ दर्ज की गई उपरोक्त त्रैमासिक / वार्षिक वित्तीय परिणामों का विस्तृत प्रारूप का उद्धरण है। त्रैमासिक/वार्षिक वित्तीय परिणामों का सम्पूर्ण प्रारूप बीएसई की वेबसाइट https://beta.bseindia.com/corporates/ann.html?scrip=519003&dur=A#) और कंपनी की वेबसाइट

उपरोक्त अवधि के दौरान कोई अपवादात्मक और / या असाधारण मदें नहीं है।

स्थानः नई विल्ली

(रु. लाखों में

31.12.2019 में

समाप्त तत्स्थानीय

3 महीने

(अनंकेक्षित)

9.70

(4.15)

350.00

176.50

0.13

0.13

31.12.2020 को

समाप्त नौमाही के

लिये तिथि तक वर्ष

के आंकडे

(अंकेक्षित)

68.92

1000.00

182.18

1.45

1.45

निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से

रीता फाइनांस एंड लीजिंग लिमिटेड

(पूर्व में रीता होल्डिंग्स लिमिटेड)

किरण मित्तल (निदेशक)

DIN:00749457

JAMNA AUTO INDUSTRIES LIMITED CIN: L35911HR1965PLC004485 Regd. Office: Jai Springs Road, Industrial Area, Yamuna Nagar - 135001, Haryana Corporate Office: 2, Park Lane, Kishangarh, Vasant Kunj, New Delhi - 110070 Telephone: +91 11 26893331, Fax: +91 11 26893180 Website: www.jaispring.com NOTICE

notice is hereby given that Board of Directors of the Company at their meeting held on February 05, 2021 has declared an Interim Dividend of Rs.0.25 (Twenty Five Paisa) per equity share of nominal value of Rs.1 each for the financial year 2020-21 and fixed Thursday, February 18, 2021 as record date to determine eligible shareholders entitled to

Members holding shares in physical mode, who have not registered/updated their email address/ mobile number /PAN Number/ Bank Mandate/ Nation Electronic Clearing Service (NECS) details with the Company, are requested to register/ update the same through a request letter along with self-attested copy of PAN, original cancelled cheque with preprinted name of the member and bank attested copy of passbook/statement showing name of the account holder to Skyline Financial Services Pvt. Ltd. at D-153/A, First Floor, Okhla Industrial Area, Phase – I, New Delhi –110020; Email Id: admin@skylinerta.com; Ph. No. +91- 11-40450193- 97. Beneficial owners holding shares in electronic form are requested to register/ update their change in email address/ Mobile Number/ Bank Mandate/NECS details, if any, to their respective Depository Participants (DPs) in order to get the same registered.

Pursuant to the changes introduced by the Finance Act 2020, w.e.f. April 1, 2020, the Company would be required to withhold taxes at the prescribed rates on the dividend paid to its shareholders. The withholding tax rate would vary depending on the residential status of the shareholder and the documents submitted by them and accepted by the Company. Accordingly, the interim dividend will be paid after withholding the tax at source at the

Members who wish to claim beneficial or concessional rate of withholding tax (as per DTAA/Income Tax Act, 1961), need to submit the documents prescribed on the given link: https://iaispring.com/pdf/tax-exemption-form-for-TDS.pdf to avail such beneficial or concessional rates. The documents, as applicable, should be provided to the company or RTA i.e. Skyline Financial Services Private Limited on their Mail-ID i.e. investor.relations@jaispring.com and/or admin@skylinerta.com respectively on or before 18 February, 2021 to enable the Company to determine the appropriate withholding tax rates. No communication on the tax determination/deduction received post 18 February, 2021 shall be considered for payment of the interim dividend. It is advisable to provide the documents at the earliest to enable the Company to collate the documents to determine the appropriate rates of withholding tax. Application of beneficial or concessional tax rates shall depend upon the completeness of the documents submitted by the members and review to the satisfaction of the Company. Email communication regarding withholding of tax at source and instructions for relevant form is also being sent to the registered mail id of Members.

Place: New Delhi Date: February 09, 2021

Praveen Lakhera Company Secretary & Head-Legal

अधिनियम के अध्याय XXI के भाग I के तहत पंजीकरण के विषय में सूचना देते हुए विज्ञापन [कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 374(बी) तथा कम्पनी (पंजीकरण हेतु अधिकृत) नियम, 2014

एतद्रारा सचना दी जाती है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 लिमिटेड के रूप में पंजीकृत किया जाये। . कम्पनी के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं :

ब्यटी एवं पर्सनल केयर उत्पादों की बिक्री, विपणन तथ वितरण एवं अन्य अनुषंगी व्यवसाय जो इसके साथ अनुसुची I में संलग्न हैं अथवा कोई ऐसा अन्य व्यवसाय किसी अन्य रीति से जैसा साझेदारों के बहुमत द्वारा निर्धारित किया जाए। प्रस्तावित कम्पनी के प्रारूप मेमोरेंडम तथा आर्टिकल्स

ऑफ एसोसिएशन की एक प्रति कार्यालय प्लॉट सं. 18. इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-2, पंचकुला, हरियाणा-133143 पर निरीक्षित की जा सकती है।

दिनों के भीतर भेज सकता है।

के नियम 4(1) के अनुसार]

की धारा 366 की उपधारा (2) के अनसार रजिस्टार दिल्ली के समक्ष अबसे पन्द्रह दिनों के पश्चात किन्तु तीस दिनों की समाप्ति से पूर्व रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज, नई दिल्ली के पास एक आवेदन किया जाना प्रस्तावित है कि M/s Vantage Prefab LLP आल्पस ब्यटी एलएलपी को कम्पनी अधिनियम 2013 के अध्याय XXI के भाग I के तहत शेयर द्वारा कम्पनी

्र एतद्वारा सूचित किया जाता है कि इस आवेदन पर आपित्त करने वाला कोई व्यक्ति रजिस्ट्रार, केंद्रीय पंजीकरण केंद्र (सीआरसी), इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स (आईआईसीए), प्लॉट सं. 6, 7, 8, सेक्टर 5, आईएमटी मानेसर, गुरुग्राम, हरियाणा, भारत-122050 पर तथ कम्पनी के उपर्युक्त बिन्दु 3 पर उल्लिखित पंजीकृत कार्यालय पर एक प्रति भेजते हुए लिखित में अपनी आपत्तियाँ इस सुचना की प्रकाशन की तिथि से इक्कीस

आवेदकों के नाम 1. आरती दुग्गाली 2. सौरभ महाजन

तिथि : 10 फरवरी, 2021

COURT NOTICE In The Court Of Manmohan Bhatti Judicial Magistrate First Class-9, Jalandhar

CNR NO: PBJL03-029760-2018 NEXT DATE: 07-04-2021 Bharat Super Plast Pvt. Ltd

Publication Issued To: M/s Vantage Prefab LLP R/o C- 260. Nirman Nagar, Ajmer Road, Jaipur RJ 302019 IN, Also At Plot No. B-1, 1053 P. Aliminimum Park, Sarua, Industrial Estate, Khurda, Orissa, 752057, Through Its Partner/ Designated Partner Sh. Happy Jain And Happy Jain Partner Of M/s Vantage Prefab LLP, C-260, Nirman Nagar, Ajmer Road, Jaipur RJ 302019 IN And Amrit Arora Partner M/s Vantage Prefab LLP C-260 Nirman Nagar, Ajmer Road, Jaipur RJ 302019 IN In above titled case, the accused could not be served. It is ordered that accused should appear in person or through counsel on 07-04-2021 at 10.00 a.m. for details logon to: https://highcourtchd.gov.in/?trs=district

notice&district=Jalandhar JMIC-9, Jalandhar dated, this day of 08-92-2021

JAGSONPAL FINANCE & LEASING LTD. CIN: L65929DL1991PLC043182

Extract of Standalone Unaudited Financial Results for the Quarter & Nine Months ended 31 December, 2020.

Regd. Office: D-28, First Floor, Greater Kailash Enclave - I, New Delhi - 110 048. Tel: 011-49025758, Fax: 011-41633812, Web: www.jagsonpal.co.in, Email: jagsonpalfnance@gmail.com

PARTICULARS	Quarte	rended	Nine months ended		
	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2019	
Total income from operation (net)	0.28	11.95	24.61	10.85	
Net Profit/(Loss) from ordinary activities after tax	(1.08)	10.40	15,78	1.23	
Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Extraordinary items)	(1.08)	10.40	15.78	1.23	
Equity Share Capital	550.04	550.04	550.04	550.04	
Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of previous)	2	-	-	0 02	
Earning Per Share (before extraordinary items) (Face Value ₹ 10/- each) - Basic & Diluted	(0.02)	0.19	0.29	0.02	
Earning Per Share (after extraordinary items) (Face Value ₹ 10/- each) - Basic & Diluted	(0.02)	0.19	0.29	0.02	

filed with the Stoch Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and other Disclosure Requirements) Regulation 2015. The Full format of the Quarterly/Nine months Financial Results are available on the Stock Exchange i.e www.bseindia.com and on the company's website www.jagsonpal.co.in. Kanwarpal Singh Kochhar Place: New Delhi Chairman & Managing Director

Date: 09.02.2021

DIN: 00529230



ई-निविदा के माध्यम से निम्नलिखित कार्य के लिये ई-निविदा आमंत्रित की जाती हैं:-

क्रम कार्य का नाम निविदा आई डी सं. निविदा राशि प्राप्त करने लागत की अंतिम 16.02.2021 2021 DAMB 199432 केशोपुर मंडी 1,58,23,486/-3,16,470/ प्रांगण की सुरक्षा निगरानी एवं देख रेख हेतु 28 सुरक्ष कर्मी एवं पर्यवेक्षक आपूर्ति के लिये सुरक्षा सेवाएं प्रदान करने वाली एजेंसी

निविदा के अन्य सभी विवरण वेबसाइट https://govtprocurement.delhi.gov.in पर देखे जा सकते हैं।

Sd/-Secretary

APMC Keshopur

DIP/SHABDARTH/0609/20-21

को अनुबंधित

करने हेत्।

दिल्ली जल बोर्ड: रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार कार्यालयः कार्यपालक अभियंता (पूर्व) I एम-16 मयुर विहार, पॉकेट ई, फेज II, नई दिल्ली-110091 कॉरोना रोकें: 1. अपने हाथों को साफ रखें 2. मास्क पहनें 3. सामाजिक दरी का पालन करें। प्रैस निविदा सुचना एनआईटी सं. 32/पूर्व-I/(2020-2021) कार्य का विवरण **ई-प्रापण सॉल्य**शन र्द-पापण मॉल्यशन के निविदा मुल्य राशि माध्यम से निविदा के माध्यम से निविदा प्राप्ति की र्इसीबी/ (ईएमडी) जारी की तिथि एवं निविदा राशि निविदा आईडी सं. अंतिम तिथि/समय

एसी-55, ईस्ट I में बी तथा बी 1 ब्लॉक न्य अशोक नगर, वाड़ 3463302/-22.02.2021 को नं. 04 ई में शेष बचे मकानों में सीवर कनैक्शन का प्रावधान 2021 DJB 19978 9/4/2020-पीपीडी तथा 3.15 अप. में दि.ज.बो. एन्डोर्जमेन्ट नं. DJB/20-21/Misc-II 2. एसी-55, ईस्ट-I में वार्ड नं. 04 ई में सी-ब्लॉक (पैकेज 1) 4937604/-08.02.2021 22.02.2021 को 2021_DJB 19978 3 न्यु अशोक नगर में शेष बचे मकानों में सीवर कनैक्शन व (PT)/971 तिथि 3.15 अप. में 23.12.2020 के माध्यम से प्रावधान करना। छूट दी गई

इस संदर्भ में अधिक विवरण वेबसाईट https://govtprocurement.delhi.gov.in पर देखें।

पी.आर.ओ. (जल द्वारा जारी)

विज्ञा. सं. जे.एस.वी. 2020-21/390

(प्रताप सिंह कार्यपालक अभियंता (पूर्व)-I

"IMPORTANT" Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

SALORA

सलोरा इन्टरनेशनल लिमिटेड सीआईएन: L74899DL1968PLC004962

31 दिसम्बर, 2020 को समाप्त तिमाही तथा नौमाही हेतु अलेखापरिक्षत वित्तीय परिणामों के विवरण का सारांश

(रुपए लाख में समाप्त वर्ष विवरण 31.12.2019 31.12.2020 30.09.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.03.2020 लेखापरीक्षित अलेखापरीक्षित अलेखापरीक्षित अलेखापरीक्षित अलेखापरीक्षित अलेखापरीक्षित प्रचालनों से कल आय 2,740.90 3,887.74 6,074.91 12,472.40 16,894.80 2,431.51 अवधि हेत् निबल लाभ/(हानि) (असाधारण मदों तथा कर से पुर्व) (241.57)(128.99)(411.39)(675.55)(845.68) (1,291.13)(812.56)(128.99)(411.39)(1,246.54)(845.68)अवधि हेत निबल लाभ/(हानि) (असाधारण मदों के पश्चात तथा कर के पर्व) (1,291.13)अवधि हेतु कर पश्चात निबल लाभ/(हानि) (576.49)(93.79)(484.95)(898.89)(1,014.66)(1,353.97)अवधि हेत् कुल व्यापक आय [अवधि हेत् लाभ/(हानि) (कर पश्चात) तथा अन्य (575.56)(92.86)(486.83)(896.10)(1,020.28)(1,350.25)व्यापक आय (कर पश्चात) से मिलकर] प्रदत्त इक्विटी शेयर पँजी 880.73 880.73 880.73 880.73 880.73 880.73 तुलनपत्र में प्रदर्शित के अनुसार आरक्षितियाँ --4,613.40 आय प्रति शेयर (रु. 10/- प्रत्येक) (1.06)(10.21)(6.55)(5.51)(11.52)(15.37)डाइल्यटेड (6.55)(1.06)(5.51)(10.21)(11.52)(15.37)

स्थानः नर्ड दिल्ली

निशान्त गौरव गप्ता

1. उपरोक्त वित्तीय परिणामों की ऑडिट कमिटी द्वारा समीक्षा की गई तथा 9 जुलाई, 2021 को आयोजित उनकी बैठक में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किये गये तथा इन परिणामों की कम्पनी की सांविधिक

2. 31 दिसम्बर, 2020 को समाप्त तिमाही एवं नौमाही के कम्पनी के प्रचालन तथा वित्तीय परिणाम कोविड-19 महामारी एवं भारत सरकार द्वारा लॉकडाउन के कारण प्रभावित हुए हैं है। जारी कोविड महामारी के कारण कम्पनी ने सीमित ढंग से प्रचालन जारी रखा। अतः वर्तमान तिमाही तथा नौमाही के परिणाम सम्बन्धित पूर्व तिमाही तथा नौमाही के साथ तुलनीय नहीं हैं। कम्पनी ने 31 दिसम्बर, 2020 को इन वित्तीय परिणामों के अनमोदन की तिथि तक आन्तरित एवं बाह्य अद्यतन सचना के आधार पर अपने प्रचालनों, तरलता स्थित तथा अपनी आस्ति शेषों की रिकवरेबिलिटी पर जारी कोविड-19 महामारी के प्रभावों का मुल्यांकन संचालित किया है। चुंकि स्थितियाँ लगातार उभर रही हैं अतः प्रभावों का आकलन इन वित्तीय परिणामों के अनुमोदन की तिथि तक किये गये आकलनों से भिन्न हो सकते हैं और प्रबन्धन कम्पनी के

में गिरे हैं।

4. डब्ल्यूओईजी (विंड मिल्स) की कम्पनी से खरीद हेतु सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड के साथ 22 दिसम्बर, 2020 को इन्वेंट्री परचेज एग्रीमेंट के अनुसार, जिसे 07.11.2020 को आयोजित निदेशक मंडल की बैठक में और 04.12.2020 को आयोजित शेयरधारकों की असाधारण आम बैठक में अनुमोदित किया गया। रिटेन डाउन वैल्यु रु. 1063.49 लाख के विंड डिवीजन की अचल आस्तियों को रु. 49250 लाख की वसुली मुल्य पर इंड एएस 105 ''विक्रय तथा असतत प्रचालनों हेतु धारित गैर-चालु आस्तियों'' के अनुसार बिक्री/निस्तारण हेतु आस्ति को रूप में विचार किया गया है और अपवादित मदों के रूप में रु.

कोई हो, का मुल्यांकन किया जायेगा और उस अवधि में लेखाबद्ध किया जायेगा जिसमें कथित संहिताओं प्रभावी होंगी और उसके तहत निर्मित नियम अधिसचित होंगे।

6. वर्तमान समाप्त तिमाही/अवधि/वर्ष के आंकड़ों को जहाँ आवश्यक समझा गया गत समाप्त संगत तिमाही/अवधि/वर्ष के आँकड़ों को पुनर्समूहीकृत/पुनर्वर्गीकृत किया गया है। सलोरा इन्टरनेशनल लि. के लिए

गोपाल सीताराम जीवारजक तिथि: 9 फरवरी, 202**1** अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशव

बिक्री सुचना श्रीधर मिल्क फूड्स लिमिटेड (परिसमापनाधीन) पंजीकृत कार्यालय : 632/7, दूसरी मंजिल, खारी बावली, नई दिल्ली-110006 भारत परिसमापक : निशान्त गौरव गुप्ता

परिसमापक का पता : सिद्धान्त एडवोकेट्स, फ्लैट सं. 542, प्रथम तल, डीडीए एसएफएस फ्लैट्स, सेक्टर-22, पॉकेट 1, द्वारका, नई दिल्ली-110077 मोबाइल नं. : +91-9555737707 (श्री ओम प्रकाश शर्मा) ई-नीलामी

दिवाला एवं दिवालिया संहिता, 2016 के अन्तर्गत परिसम्पत्तियों की बिक्री ई-नीलामी की तिथि एवं समय : 20 फरवरी, 2021 को 01.00 बजे अप. से 3.00 बजे अप. भा.मा.स. तक (प्रति 5 मिनट के असीमित विस्तारों के साथ)

श्रीधर मिल्क फुड्स लिमिटेड (परिसमापन में) जो आदेश तिथि 12 सितम्बर, 2019 के माध्यम से माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, प्रधानपीठ पीठ, नई दिल्ली द्वारा नियक्त परिसमापक के परिसमापन सम्पदा का भाग है, के स्वामित्व की आस्तियों तथा परिसम्पत्तियों की बिक्री। यह बिक्री अधोहस्ताक्षरी द्वारा ई-नीलामी कम्पनी लिंकस्टार इन्फोसिस प्रा.लि.

	(19) Aleana https://www.cauctions.co.m ar aixi an aiaaii			
	आस्ति	ब्लॉक	आरक्षित मूल्य	ईएमडी राशि
	1 किमी, इन्कोण्डा रोड, ग्राम मुबारकपुर, जोया, जिला अमरोहा पर स्थित श्रीधर	ब्लॉक-1	₹.	₹.
	मिल्क फूड्स लिमिटेड के संयन्त्र के परिसर के आन्तरिक भाग में स्थित सम्पूर्ण		16,40,25,000/-	1,64,02,500/-
	संयन्त्र तथा मशीनरी (अचल तथा चल दोनों) एवं उस पर भवन।			
ď	र्र-जीलामी के निराम एवं शर्वे रम एकार है.		100	

1. ई-नीलामी स्वीकृत सेवा प्रदाता मै. मैसर्स लिंकस्टार इन्फोसिस प्रा.लि. के द्वारा ''जैसा है जहां है'' तथा ''जो भी वहां है'' आधार पर आयोजित होगी। 2. यह सुचना आस्तियों के विवरण, ऑनलाइन ई-नीलामी बोली प्रपत्र, घोषणा एवं शपथपत्र प्रपत्र, ई-नीलामी बिक्री के

https://www.eauctions.co.in पर उपलब्ध है। सम्पर्क करें : श्री दीक्षित प्रजापित 7874138237 ई-मेल आईडी admin@eauctions.co.in. . अपनी बोली जमा करने से पूर्व इच्छुक बोलीदाताओं को अपने स्वयं के खर्चे पर वाहनों के स्वामित्व, बीमा एवं अन्य बकाया प्रभारों, यदि कोई हो, से सम्बन्धित अपनी स्वतंत्र जाँच कर लेनी चाहिए और स्वयं को संतुष्ट कर लेना चाहिये।

सामान्य नियम एवं शर्तों से शामिल सम्पर्ण ई-नीलामी प्रक्रिया दस्तावेज के संयोजन में पढी जायेगी जो वेबसाइट

संभावित बोलीदाता श्री ओमप्रकाश शर्मा : +91 9555737707 से सम्पर्क कर पूर्व अनुमित के साथ साईट पर उपरोक्त वर्णित वाहनों का निरीक्षण कर सकते हैं। . अपनी संविदाएँ जमा करने से पूर्व इच्छुक संविदाकारों को प्रत्येक सम्भव रीति से स्वयं को सन्तुष्ट करना होगा और इसके पश्चात इस प्रक्रिया में किसी भी रीति से कोई व्यय. हानि अथवा क्षति. यदि कोई हो, के लिए परिसमापक इच्छक/सम्भावित

संविदाकारों के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा। संभावित संविदाकारों द्वारा उपर्युक्त वर्णित सम्पत्तियों/आस्तियों का निरीक्षण श्री ओमप्रकाश शर्मा : +91 8882555719 से सम्पर्क करके पूर्व अनुमति लेकर साइट पर किया जा सकता है। . नीलामी के तहत रखी सम्पत्ति का निरीक्षण 16.02.2021 को किया जा सकता है। इच्छ्क संविदाकारों को संयन्त्र का

निरीक्षण करने से पूर्व श्री ओमप्रकाश शर्मा से +91 8882555719 पर सम्पर्क करना होगा। 6. इच्छुक संविदाकारों को जमा धरोहर राशि (ईएमडी) या तो एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से ''श्रीधर मिल्क फुड्स लिमिटेड परिसमापनाधीन'' के खाते में, खाता सं. : 4904002100005168, पीएनबी बैंक, शाखा : एसएमई शाखा इण्डस्ट्रियल एरिया, पटपड्गंज, नई दिल्ली, आईएफएससी कोड : PUNB0490400 में या श्रीधर मिल्क फुड्स लिमिटेड परिसमापनाधीन के नाम पर किसी अनसचित बैंक से आहरित डीडी के माध्यम से जमा करनी होगी या ईएमडी राशि के

. इच्छुक बोलीदाता को 1) पहचान के प्रमाण, 2) वर्तमान पता- प्रमाण, 3) पैन कार्ड, 4) वैध ई-मेल आईडी, 5) लैंडलाइन एवं मोबाईल फोन नम्बर, 6) शपथ-पत्र अथवा वचन, 7) बोली आवेदन प्रपत्र, 8) बोलीदाता द्वारा उद्घोषणा की स्वतः सत्यापित प्रति के साथ ई-नीलामी में भागीदारी के लिये ईएमडी के साक्ष्य अथवा बैंक गारन्टी तथा भागीदारी के लिये अनुरोध पत्र जमा करना होगा। इन परिशिष्टों का सम्पर्ण प्रारूप ई-नीलामी प्रक्रिया दस्तावेज से लिया जा सकता है। ये सभी दस्तावेज 18.02.2021 को 5.00 बजे सायं से पर्व नीचे दिये गये पते पर डाक या ई-मेल द्वारा

परिसमापक के कार्यालय में पहुंच जाना चाहिये। 8. पोर्टल https://www.eauctions.co.in पर ई-नीलामी में भाग लेने के लिये योग्य बोलीदाता के नाम की पहचान परिसमापक द्वारा की जायेगी। ई-नीलामी सेवा प्रदाता योग्य बोलीदाताओं को ई-मेल द्वारा यजर आईडी तथा पास्वर्ड

9. ई-नीलामी में भाग लेने वाले पात्र बोलीदाताओं को कम से कम आरक्षित मुल्य पर बोली लगानी होगी और वे ब्लॉक के

लिए न्यूनतम रु. 10,00,000/- (रुपये दस लाख मात्र) वर्धन राशि अथवा इन राशियों के गुणक में अपनी बोली बढ़ायेंगे। 10. यदि बोली ई-नीलामी की समापन समय के अंतिम 5 मिनट में प्रस्तत की जाती है तो समापन समय असीमित विस्तारों के साथ स्वतः आगे पांच मिनट बढ जायेगा। ई-नीलामी प्रक्रिया की समाप्ति पर उच्चतम बोली राशि (आरक्षित मल्य से कम नहीं) प्रस्तुत करने वाले बोलीदाता को सफल बोलीदाता घोषित किया जायेगा तथा ई-नीलामी सेवा प्रदाता द्वारा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से उन्हें इस आशय की सुचना दी जायेगी जो परिसमापक द्वारा स्वीकृति के अध्यधीन होगा। 11. सफल बोलीदाता की ईएमडी बिकी मल्य के भाग के रूप में सरक्षित रखी जाएगी तथा असफल बोलीदाता की ईएमडी

राशि (सफल बोली राशि–ईएमडी राशि) का भुगतान करना होगा। एलओआई में वर्णित समय–सीमा में सफल बोलीदाता द्वारा शेष राशि के भुगतान में चूक करने पर सफल बोलीदाता द्वारा जमा की गई संपूर्ण राशि (ईएमडी+अन्य कोई राशि) 12. सफल बोलीदाता को ई-नीलामी पर रखी सम्पत्तियों के परिप्रेक्ष्य में लागु होने वाले स्टाम्प शुल्कों/अंतरण चार्ज, शुल्क आदि

तथा अन्य सभी विधिक/गैर-विधिक बकायों, करों, दरों, आकलन प्रभारों, शुल्कों आदि का वहन करना होगा।

वापस लौटा दी जाएगी। ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दिया जायेगा। परिसमापक सफल बोलीदाता के लिए आशय पत्र

(एलओआई) जारी करेंगे तथा सफल बोलीदाता को परिसमापक द्वारा एलओआई जारी करने के 15 दिनों के भीतर शेष

13. सम्पूर्ण बिक्री राशि के भुगतान पर केवल सफल बोलीदाता के नाम में ही बिक्री प्रमाणपत्र/अनुबंध जारी की जाएगी तथा 4. परिसमापक को उसका कोई भी कारण बताए बिना किसी या सभी प्रस्तावों को स्वीकार या निरस्त करने अथवा ई-नीलामी को स्थगित/रह/निलम्बित करने तथा सम्पत्ति अथवा उसके किसी भी भाग को ई-नीलामी से वापस लेने का

15. यह बिक्री दिवाला तथा दिवालिया संहिता, 2016 तथा उसके अंतर्गत निर्मित विनियमनों के प्रावधानों के अधीन होगी।

परिसमापक श्रीधर मिल्क फुड्स लिमिटेड के मामले में पंजी. सं.: IBBI/IPA-002/IP-N00572/2017-18/11739 पंजीकृत ई-मेल : nishantgaurav@outlook.in

पता : सिद्धान्त एडवोकेट्स, फ्लैंट सं. 542, प्रथम तल, डीडीए एसएफएस फ्लैट्स, तिथि : 09.02.2021 सेक्टर-22, पॉकेट 1, द्वारका, नई दिल्ली-110077 स्थान : नई दिल्ली प्रक्रिया विशिष्ट ई-मेल : liquidator@outlook.in

www.readwhere.com

नई विल्ली

09 फरवरी, 2021

चप-अध्यक्ष एवं कंपनी सचिव

महीनें महीनें अनुरूप 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 (अनंकेशित) (अनंके सित) (अनंकेसित) इक्किटी शेयर पूंजी (अंकित मूल्य प्रत्येक रू 10/-) 1265.64 1265.64 प्रति शेयर आय (प्रत्येक रू. 10/-) (चालू और बंद प्रचालन के लिए)

बेसिक (रू. में) 1.30 2.41 डायल्युटिड (रू. में) 1.30 2.41

(www.modinaturals.org) पर उपलब्ध है।

कृते मोदी नेषुरल्स लिमिटेड

तिथि: 09.02.2021

Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with rules made thereunder,

For Jamna Auto Industries Limited Sd/-

पंजीकृत कार्यालयः डी-13/4, ओखला इण्डस्ट्रियल एरिया, फेज-II, नई दिल्ली-110020, वेबसाईट: www.salora.com

नोट : अंकेक्षकों ने लेखापरीक्षा की है।

वित्तीय तथा प्रचालनात्मक निष्पादन पर इस महामारी के प्रभावों के कारण उत्पन्न होने वाले किसी तात्विक परिवर्तन की निगरानी जारी रखेगी और स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक उपाय करेगी। . दिसम्बर, 2020 को समाप्त तिमाही तथा नौमाही हेत सेग्मेंट रेवेन्य तथा विंड एनर्जी डिवीजन के परिणाम प्रशल्क दर तथा मौसमी प्रकृति में परिवर्तन के कारण गत वर्ष की इसी तिमाही तथा नौमाही की तलना

570.99 लाख की हानि प्रदर्शित की गयी है। 5. सामाजिक सरक्षा संहिता, 2020 को 29 सितम्बर, 2020 के आधिकारिक गजट में अधिसचित किया गया है। प्रभावी तिथि अधिसचित की जानी है और नियम अभी बनाये जाने हैं। परिवर्तन का प्रभाव, यदि

FINANCIAL EXPRESS

GSPL India Gasnet Limited ഒമ CIN: U40200GJ2011SGC067449 Regd Office: "GSPL Bhavan, Sector-26, Gandhinagar-382 028" Tel: +91-79-23268500 Fax: +91-79-23268875 Website: www.gspcgroup.com

NOTICE INVITING TENDER GSPL India Gasnet Limited (GIGL) invites bids through offline bidding for "Hiring of Vehicle Services for GIGL" vide single stage three-part bidding process. Interested bidders can view the details, Tender Documents and Bidding

Schedule on GIGL Website: http://gspcgroup.com/GIGL/tender.aspx Details Date & Time Date and Time of tender Upload on GIGL website 10/02/2021, 12:00 hrs (IST) Last Date and Time for Submission of Bids 25/02/2021 upto 17:00 hrs (IST All future announcement related to this tender shall be published on GIGL Website (http://gspcgroup.com/GIGL/tender.aspx) ONLY.

GIGL reserves the right to cancel and/or alter bidding process at any stage without assigning any reason. GIGL also reserves the right to reject any or all of the bids received at its discretion, without assigning any reasons whatsoever.

बीईएमएल लिमिटेड BEML LIMITED (CIN: L35202KA1964GO1001530) (Schedule A Company under Ministry of Defence)

Regd. OfficeL "BEML SOUDHA", 23/1, 4th Main Road, S. R. Nagar, Bengaluru-560 27. Tel & Fax: (080) 22963142, E-mail: cs@beml.co.in Website: www.bemlindia.in

Notice is hereby given that the following share certificate have been reported lost/misplaced and the holder of the share certificate have applied with the Company for issue of duplicate share certificate.

Folio No. Cert No. No. of Distinctive Nos. Name of Shareholders Shares SOHINIBEN S SHAH BES007619 59799 100 31979801-31979900 SUNDERLAL C SHAH Objections, if any, may please be lodged with the Company at the above

address within 15 days from the date of publication of this notice. Please note that, if no objection is received within the said period, the Company will proceed further with issuing the duplicate share certificate to the applicant/shareholder. For BEML Limited

S V Ravisekhar Rao Bangalore 09-02-2021 Company Secretary

SUYOG TELEMATICS LIMITED

CIN: L32109MH1995PLC091107

Regd Office: 41, Suyog Industrial Estate, L B S Marg, Vikhroli (W), Mumbai - 400 083 Tel. No.: 022-2579 5516 | Email: investor@suyogtelematics.co.in

Extract Statement of Audited Financial Results for the Quarter ended Dec 31, 2020 (INR in Lakhs, unless otherwise stated)

	1	Quarte	rended	Year Ended
Sr.	Particulars	31.12.2020	31.12.2019	31.03.2020
No.		Unaudited	Unaudited	Audited
1	Total Income: a) Income from Operations b) Other Income	3379.76 14.39	3134.87 28.26	12232.64 107.89
2	Net Profit / (Loss) for the period (before tax and exceptional items)	1144.14	1175.87	4,342.85
3	Net Profit / (Loss) for the period (before tax after exceptional items)	1144.14	1175.87	4,342.85
4	Net Profit / (Loss) for the period (after tax and exceptional items)	820.80	881.85	3302.84
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising profit for the period after tax and other comprehensive income after tax)	821.53	888.29	3271.74
6	Paid up Equity Share Capital (in no.)	101.544	101.544	101.544
7	Other Equity (as per last audited balance sheet)	NA	NA	11697.91
8	Earnings per share (EPS) FV of INR 10/- each (not annualized) 1) Basic EPS: 2) Diluted EPS:	8.08 8.08	8.68 8.68	32.53 32.53

Note: 1) This statement has been prepared in accordance with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 (Ind AS) prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 and other recognized accounting practices and policies to the extent applicable.

2) The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results for the guarter ended Dec 31, 2020, filed with the stock exchange under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results for the guarter ended Dec 31, 2020 are available on Stock Exchange website viz. www.bseindia.com and Company's 3) The above results were reviewed and recommended by the Audit Committee

website www.suyogtelematics.co.in and approved by the Board of Directors at their respective meeting held on

For Suyog Telematics Limited

Place: Mumbai Date: February 09, 2021

February 09, 2021.

Shivshankar Lature Managing Director DIN: 02090972



CIN: L34103DL1981PLC011375 Regd. Off.: Plot No.1, Nelson Mandela Road, Vasant Kunj, New Delhi-110070

Ph.: +91 (11) 46781000, Fax: +91 (11) 46150275 www.marutisuzuki.com, investor@maruti.co.in

NOTICE OF POSTAL BALLOT/E-VOTING

Members are hereby informed that pursuant to the provisions of Section 108, Section 11 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 (the "Act") read with Rule 20 and Rule 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (the "Rules"), and in accordance with the guidelines prescribed and relevant circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs (the "MCA") for holding general meetings / conducting posta ballot through e-voting, the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements Regulations, 2015 (the "Listing Regulations"), Secretarial Standard-2 issued by the Institute of Company Secretaries of India and other applicable laws and regulations, if any, including any statutory modification(s) or re-enactment(s) thereto for the time being in force, the Company has completed dispatch of Postal Ballot Notice dated 28th January, 2021 (the"Notice") along with Explanatory Statement, on 09th February, 2021 only through electronic mode to all those Members who have registered their email address with their Depository Participant(s) (the "DPs") or with KFin Technologies Private Limited, the Registrars and Share Transfer Agen of the Company ("KFIN") as on 5th February, 2021 (the "Cut-off Date").

Due to the outbreak of COVID-19 Pandemic, MCA has permitted companies to conduct the Postal Ballot by sending the Notice in electronic form only. Accordingly, physical copy of the Notice along with Postal Ballot Form and pre-paid business reply envelope will not be sent to

the Members for this Postal Ballot. Members are hereby informed that:

- (a) The resolution pertaining to "Alteration of the Object Clause of the Memorandum of Association of the Company' as set out in the Notice is to be transacted through Posta Ballot by voting through electronic means only ("remote e-voting") through remote e-voting
- platform provided by KFIN. (b) The remote e-voting period commences on Monday, the 15th February 2021 (9:00 A.M. (c) The remote e-voting period ends on Tuesday, the 16th March, 2021 (5:00 P.M.) The remote e-voting facility shall be forthwith disabled by KFIN after expiry of the said period
- (d) During this period, only those Members whose names appear in the Register of Member or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories, as on the Cutoff Date i.e. Friday, the 5th February, 2021, shall be entitled to cast their vote through remote e-voting.
- A person who is not a Member of the Company as on the said cut-off date, will not be entitled to vote and should treat this Notice, for information purpose only.
- (e) In case of any query/grievance regarding remote e-voting, Members are requested to write to einward.ris@kfintech.com or evoting@kfintech.com or contact KFIN at below
- Mr. Raj Kumar Kale , Senior Manager, KFin Technologies Private Limited, Tower- B, Plo 31-32, Selenium Building, Financial District, Nanakramguda, Gachibowli, Hyderabad 500032, Phone No. 040- 67162222 or at toll free no. 1-800-34-54-001

Members holding shares in electronic form are requested to update their email address and mobile number with their respective DPs. Members can also temporarily update their email address and mobile number with KFIN, by following the procedure given below:

(i) Visit the link https://ris.kfintech.com/clientservices/postalballot/ (ii) Select the Company name: Maruti Suzuki India Limited

(iii) Enter DPID Client ID (in case shares are held in electronic form)/Physical Folio No. (in case shares are held in physical form) and Permanent Account Number ("PAN").

(iv) In case of shares which are held in physical form, if PAN is not available in the records please enter any one of the Share Certificate No. in respect of the shares held by you (v) Enter the email address and mobile number

(vi) System will check the authenticity of the DPID Client ID/Physical Folio No. and PAN

Certificate No., as the case may be and send the OTPs to the said mobile number and email address, for validation

(vii) Enter the OTPs received by SMS and Email to complete the validation process. (Please

note that the OTPs will be valid for 5 minutes only).

(viii) In case the shares are held in physical form and PAN is not available, the system will prompt you to upload the self-attested copy of your PAN. (ix) System will confirm the email address for the limited purpose of serving the Notice and the

remote e-voting instructions along with the User ID and Password. (x) Alternatively, Members may send an email request to einward.ris@kfintech.com along with the scanned copy of their request letter duly signed by the I' member, providing the

email address, mobile number, self-attested copy of PAN and Client Master copy in case shares are held in electronic form or copy of the share certificate in case shares are held in physical form, to enable KFIN to temporarily register their email address and mobile number so as to enable to issue the Notice and the remote e-voting instructions along with the User ID and Password, through electronic mode.

The Notice is available on the Company's website i.e. www.marutisuzuki.com; KFIN a https://evoting.kfintech.com; National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com and BSE Limited at www.bseindia.com.

The Result(s) in respect of the resolution as set out in the Notice, so declared, along with the Scrutinizer's Report will be communicated to the Stock Exchanges, on or before Thursday, the 18th March, 2021 and will be uploaded on the website of the Company i.e. www.marutisuzuki.com and of KFIN i.e. https://evoting.kfintech.com/public/Downloads.aspx. The said Results will also be displayed at the Registered and Corporate Office of the Company

New Delhi 09th February, 2021

financiale

Sanjeev Grove Vice President & Company Secretary

For Maruti Suzuki India Limited

PVP VENTURES LIMITED

Reg Off: D. No. 2, 9th Floor, KRM Centre, Harrington Road, Chetpet, Chennai-600031; Web: www.pvpglobal.com; Email: investorrelations@pvpglobal.com; Tel: 044 30285570 CIN: L72300TN1991PLC20122

EXTRACT OF UNAUDITED STANDALONE and CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31ST DECEMBER, 2020

(as per format of Newspaper Publishing Purpose of Regulation 33 of SEBI Listing Regulations, 2015) Rs in lacs

	1	STANDALONE CONSOLIDATED							
SI. No.	PARTICULARS	Quarter ended 31.12.2020 Unaudited			Quarter ended 31.12.2020 Unaudited		Quarter ended 31.12.2019 Unaudited		
1	Total income from operations (net)	913.77	· '						
2	Net Profit / (Loss) for the period (before tax and exceptional items)	76.53	(1,094.06)	(338.85)	(1,935.71)	(6,418.45)	(2,773.85)		
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after exceptional items)		(1,094.06)	(338.85)	(1,935.71)	(6,418.45)	(2,773.85)		
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after exceptional items)	(128.64)	(1,357.43)	(338.85)	(2,140.88)	(6,681.82)	(2,773.85)		
5	Total comprehensive Income for the period (Comprising profit/(loss) for the period (after tax) and their comprehensive income (after tax))	· ' /	(1,357.43)	(338.85)	(2,140.88)	(6,681.82)	(2,773.85)		
6	Equity Share Capital (Face value of Rs. 10 each)	24,505.27	24,505.27	24,505.27	24,505.27	24,505.27	24,505.27		
7	Earnings Per Share (not annualised) of Rs. 10 each/-								
	Basic	(0.05)	(0.55)	(0.14)	(0.87)	(2.73)	(1.13)		
	Diluted	(0.05)	(0.55)	(0.14)	(0.87)	(2.73)	(1.13)		
NO.	TES:					011 = 1			

The above results have been reviewed by the Audit Committee at its meeting held on 9th Febraury, 2021 and approved by the Board of Directors at its meeting held on even date. The above quarterly results have

also been reviewed by the statutory auditors.

The above is an extract of the detailed format of Standalone financial results for the guarter and nine months ended 31st December, 2020 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Exchange websites www.bseindia.com, www.nseindia.com and on the company's website www.pvpglobal.com. For and on behalf of the Board of Directors Sd/-

Prasad V. Potluri Place: Hyderabad Chairman & Managing Director Date : February 09, 2021

PICTUREHOUSE MEDIA LIMITED

Reg Off: D. No. 2, 9th Floor, KRM Centre, Harrington Road, Chetpet, Chennai-600031; Web: www.pvpcinema.com; Email: ir.telephoto@pvpglobal.com; Tel: 044 30285570 CIN:L92191TN2000PLC044077

EXTRACT OF UNAUDITED STANDALONE and CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31ST DECEMBER, 2020

(as per format of Newspaper Publishing Purpose of Regulation 33 of SEBI Listing Regulations, 2015)

		S	TANDALON	JF 1	CC	NSOLIDAT	FD
SI. No.	PARTICULARS	U	Nine months ended 31.12.2020	Quarter ended 31.12.2019	Quarter ended	Nine months ended 31.12.2020	Quarter ended
1	Total income from operations (net)	0.31	5.13	62.15	0.31	5.13	60.6
2	Net Profit / (Loss) for the period (before tax, exceptional items)	(252.51)	(745.95)	(244.29)	(1,461.59)	(4,238.82)	(2,396.62
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after exceptional items)	(252.51)	(745.95)	(244.29)	(1,461.59)	(4,238.82)	(2,396.62
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax(after exceptional items)	(252.51)	(745.95)	(244.29)	(1,461.59)	(4,238.82)	(2,396.62
5	Total comprehensive Income for the period (Comprising profit/(loss) for the period (after tax) and their comprehensive income (after tax))		(745.95)	(244.29)	(1,461.59)	(4,238.82)	(2,396.62
6	Equity Share Capital (Face value of Rs. 10 each)	5,225.00	5,225.00	5,225.00	5,225.00	5,225.00	5,225.00
7	Earnings Per Share (not annualised) of Rs. 10 each/-						
	Basic	(0.48)	(1.43)	(0.47)	(2.80)	(8.11)	(4.59
	Diluted	(0.48)	(1.43)	(0.47)	(2.80)	(8.11)	(4.59
NO	TES:						

- The above results have been reviewed by the Audit Committee at its meeting held on 9th February, 2021 and approved by the Board of Directors at its meeting held on even date. The above quarterly results have also been reviewed by the statutory auditors.
- The above is an extract of the detailed format of Standalone financial results for the quarter and nine months ended 31st December, 2020 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financia Results are available on the Exchange websites www.bseindia.com and on the company's websites www.pvpcinema.com. For and on behalf of the Board of Directors

Place: Hyderabad Date: February 9, 2021 Prasad V. Potluri **Managing Director**



LIC Mutual Fund Asset Management Limited

(Investment Managers to LIC Mutual Fund) CIN No: U67190MH1994PLC077858

Registered Office: Industrial Assurance Bldg. 4th Floor, Opp. Churchgate Station, Mumbai - 400 020 Tel. No.: 022-66016000, Toll Free No.: 1800 258 5678, Fax No.: 022-22835606 Email: service@licmf.com • Website: www.licmf.com

NOTICE-CUM-ADDENDUM No. 40 of 2020-2021

Notice cum Addendum to the Scheme Information Document (SID) and Key Information Memorandum (KIM) of LIC MF Debt Hybrid Fund ('the Scheme')

Change in Risk-o-meter of the Scheme of LIC Mutual Fund ("the Fund")

Pursuant to Securities and Exchange Board of India (SEBI) circular no. SEBI/HO/IMD/DF3/CIR/P/2020/197 dated October 05, 2020, regarding Product Labeling in Mutual Fund Schemes - Risk-o-meter, the risk profiling of the Scheme of the Fund stands modified. Investors are requested to note the following change in Risk-o-meter

The change in riskometer is effective from 1st February 2021:-

in the SID and KIM of the Scheme:

	Risk-o-meter as on December 31, 2020	Risk-o-meter as on January 31, 2021 The product is suitable for investors who are seeking*		
Scheme Name	The product is suitable for investors who are seeking*			
LIC MF Debt Hybrid Fund	Medium term capital appreciation with current income A fund that invests predominantly in debt instruments with marginal equity exposure. Risk – Moderately High Moderate Moderately High Low Very High Investors understand that their principal will be at Bloderately High rese	Medium term capital appreciation with current income A fund that invests predominantly in debt instruments with marginal equity exposure. Risk – Moderate Moderate Moderately High Low Low RISKOMETER HIGH Investors understand that their principal will be at Moderane size.		

*Investors should consult their financial advisers if in doubt about whether the product is suitable for them.

The above Risk-o-meter is based on evaluation of risk level of Scheme's portfolio as on last day of the given

Unitholders are requested to note that there is no change in riskometer of other schemes of the Fund and the

change in Risk-o-meter will be evaluated on a monthly basis. Any change in Risk-o-meter will be communicated by way of Notice-cum-addendum and by email or SMS to

unitholders of that particular scheme. This notice cum addendum will form an integral part of the SID and KIM of the Scheme of the Fund.

All other terms and conditions of the Scheme will remain unchanged.

For LIC MUTUAL FUND ASSET MANAGEMENT LIMITED

As part of Go-Green initiative, investors are encouraged to register/update their email ID and Mobile Number with us to support paper-less communication.

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully. Place: Kolkata




NOTICE CUM ADDENDUM NO. AD/3/2021

THIS NOTICE CUM ADDENDUM SETS OUT THE CHANGES TO BE MADE IN THE SCHEME INFORMATION DOCUMENT ("SID") AND KEY INFORMATION MEMORANDUM ("KIM") OF CERTAIN SCHEMES OF MIRAE ASSET MUTUAL FUND ("MAMF")

Change in Risk-o-meter in certain schemes of MAMF

NOTICE is hereby given to the investors / unitholders that in accordance with SEBI Circular no. SEBI/HO/ IMD/DF3/CIR/P/2020/197 dated October 05, 2020, there shall be a change in the risk-o-meter of below mentioned schemes of MAMF based on the portfolio of January 31, 2021:



Accordingly, SIDs and KIMs of the above-mentioned schemes of MAMF stands amended suitably to reflect the changes as stated above.

This notice cum addendum forms an integral part of SIDs and KIMs of the Scheme(s) of MAMF, as

amended from time to time. All the other terms and conditions of SIDs and KIMs of the Scheme(s) will remain unchanged. For and on behalf of the Board of Directors of

MIRAE ASSET INVESTMENT MANAGERS (INDIA) PVT. LTD. (Asset Management Company for Mirae Asset Mutual Fund)

3 months 3 months 9 months 9 months

ALBERT

(Rs. in Lacs)

Date: February 09, 2021 **AUTHORISED SIGNATORY** MIRAE ASSET MUTUAL FUND (Investment Manager: Mirae Asset Investment Managers (India) Private Limited) (CIN: U65990MH2019PTC324625).

Registered & Corporate Office: 606, Windsor, Off CST Road, Kalina, Santacruz (E), Mumbai - 400098 2 1800 2090 777 (Toll free). ⊠ customercare@miraeasset.com @ www.miraeassetmf.co.in Mutual Fund investments are subject to market risks,

read all scheme related documents carefully.



Place: Mumbai

ALBERT DAVID LIMITED

Regd. Office: 'D' Block, 3rd Floor, Gillander House, Netaji Subhas Road, Kolkata - 700 001 (Corporate Identity No.: L51109WB1938PLC009490) Tel: 033-2262-8436/8456/8492, 2230-2330, Fax: 033-2262-8439 Email: adidavid@dataone.in, Website: www.albertdavidindia.com

EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED ON 31ST DECEMBER, 2020

SI. No.	Particulars	ended on 31-12-2020 (Unaudited)	ended on 31-12-2019 (Unaudited)		ended on 31-12-2019 (Unaudited)	ended on 31-03-2020 (Audited)
1	Total Income from Operations	7018.26	8250.04	20340.81	26705.85	32790.59
2	Net Profit(+)/Loss(-) for the period from operations (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	834.79	759.44	1859.14	3263.01	2895.44
3	Net Profit(+)/Loss(-) for the period from operations before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	834.79	759.44	1859.14	3263.01	2895.44
4	Net Profit(+)/Loss(-) for the period from operations (after Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	611.94	525.24	1485.08	2246.62	1916.86
5	Total Comprehensive Income for the period [comprising Profit/Loss for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)]	592.29	504.03	1386.22	2417.56	2129.66
6	Paid-up Equity Share Capital (Face Value of Rs.10/- each)	570.72	570.72	570.72	570.72	570.72
7	Other Equity	68	:-	(a.	8	21709.07
8	Earning Per Share (of Rs.10/- each) from operations					
	Basic (Rs.) :	10.72	9.20	26.02	39.36	33.59
	Diluted (Rs.) :	10.72	9.20	26.02	39.36	33.59

- 1) The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchanges website (www.bseindia.com), (www.nseindia.com) and Company's website at (www.albertdavidindia.com).
- The above Unaudited Financial Results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meetings held on 9th February, 2021 apart from being subjected to Limited Review for the guarter and nine months ended 31st December, 2020 by the Statutory Auditors, as required under Regulation 33 of SEBI (LO&DR) Regulations, 2015.
- The Statutory Auditors of the Company have issued an unmodified review report on the Unaudited Financial Results for the guarter and nine months ended 31st December, 2020.
- The outbreak of COVID-19 and consequent imposition of national lockdown by the Government seriously affected the economic activities and operational performance of the Company. Based on the contemporary indicators of future economic conditions evaluated by the management, the carrying amounts of the assets were expected to be recovered albeit subject to possible material changes subsequently for which the final impact on Company's assets might differ from that estimated at the date of financial result. The performance of the period are not comparable with the previous corresponding period due to reason stated above.

However, situation tending towards stabilisation as prima facie appears to be, normalisation in operating condition does not seem to be far off.

In pursuance to announcement of Government of India through Taxation Laws (Amendment) Ordinance,

- 2019, the Company has opted for payment of tax as per section 115BAA of the Income Tax Act, 1961 with effect from financial year 2019-2020. 6) Rise during the quarter in Other Income is, inter alia, attributed to appreciation of Rs.396.80 Lakhs in
- The Company is engaged in the manufacturing of pharmaceuticals and has only one reportable segment in accordance with Ind AS-108 "Operating Segments".
- Emphasis has been laid to gear up sales for which a separate division has been set-up involving additional expenditure and also establishment of a Marketing & Sales Office at Mumbai, the pharmaceutical hub of the sub-continent. However, the endeavour of the management has been subjected to significant hinderance during last three quarters on account of situation discussed in '4' above.

(T. S. Parmar) Managing Director & CEO (DIN: 05118311)

For Albert David Limited

New Delhi

fair value of current investments in mutual fund.

Authorized Signatory

Date: 9th February, 2021

Date: 09/02/2021

Place: Mumbai

60

MUMBAI

FINANCIAL EXPRESS

GSPL India Gasnet Limited

CIN: U40200GJ2011SGC067449 Regd Office: "GSPL Bhavan, Sector-26, Gandhinagar-382 028" Tel: +91-79-23268500 Fax: +91-79-23268875 Website: www.gspcgroup.com NOTICE INVITING TENDER

GSPL India Gasnet Limited (GIGL) invites bids through offline bidding for "Hiring of Vehicle Services for GIGL" vide single stage three-part bidding process. Interested bidders can view the details, Tender Documents and Bidding Schedule on GIGL Website: http://gspcgroup.com/GIGL/tender.aspx

Details Date & Time Date and Time of tender Upload on GIGL website | 10/02/2021, 12:00 hrs (IST) Last Date and Time for Submission of Bids 25/02/2021 upto 17:00 hrs (IST All future announcement related to this tender shall be published on GIGL Website (http://gspcgroup.com/GIGL/tender.aspx) ONLY.

GIGL reserves the right to cancel and/or alter bidding process at any stage without assigning any reason. GIGL also reserves the right to reject any or all of the bids received at its discretion, without assigning any reasons whatsoever.

बीईएमएल लिमिटेड BEML LIMITED (CIN: L35202KA1964GO1001530) (Schedule A Company under Ministry of Defence)

Regd. OfficeL "BEML SOUDHA", 23/1, 4th Main Road, S. R. Nagar, Bengaluru-560 27. Tel & Fax: (080) 22963142, E-mail: cs@beml.co.in Website: www.bemlindia.in

Notice is hereby given that the following share certificate have been reported lost/misplaced and the holder of the share certificate have applied with the Company for issue of duplicate share certificate.

Folio No. Cert No. No. of Distinctive Nos. Name of Shareholders Shares SOHINIBEN S SHAH BES007619 59799 100 31979801-31979900 SUNDERLAL C SHAH

Objections, if any, may please be lodged with the Company at the above address within 15 days from the date of publication of this notice. Please note that, if no objection is received within the said period, the Company will proceed further with issuing the duplicate share certificate to the applicant/shareholder. For BEML Limited

S V Ravisekhar Rao Bangalore 09-02-2021 Company Secretary

SUYOG TELEMATICS LIMITED

CIN: L32109MH1995PLC091107

Regd Office: 41, Suyog Industrial Estate, L B S Marg, Vikhroli (W), Mumbai - 400 083 Tel. No.: 022-2579 5516 | Email: investor@suyogtelematics.co.in

Extract Statement of Audited Financial Results for the Quarter ended Dec 31, 2020

			s, unless oth	
Sr.	Particulars	Quarte	Year Ended	
		31.12.2020	31.12.2019	31.03.2020
No.		Unaudited	Unaudited	Audited
1	Total Income: a) Income from Operations b) Other Income	3379.76 14.39	3134.87 28.26	12232.64 107.89
2	Net Profit / (Loss) for the period (before tax and exceptional items)	1144.14	1175.87	4,342.85
3	Net Profit / (Loss) for the period (before tax after exceptional items)	1144.14	1175.87	4,342.85
4	Net Profit / (Loss) for the period (after tax and exceptional items)	820.80	881.85	3302.84
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising profit for the period after tax and other comprehensive income after tax)	821.53	888.29	3271.74
6	Paid up Equity Share Capital (in no.)	101.544	101.544	101.544
7	Other Equity (as per last audited balance sheet)	NA	NA	11697.91
8	Earnings per share (EPS) FV of INR 10/- each (not annualized) 1) Basic EPS: 2) Diluted EPS:	8.08 8.08	8.68 8.68	13.000000000000000000000000000000000000

Note: 1) This statement has been prepared in accordance with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 (Ind AS) prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 and other recognized accounting practices and policies to the extent applicable.

2) The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results for the guarter ended Dec 31, 2020, filed with the stock exchange under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results for the guarter ended Dec 31, 2020 are available on Stock Exchange website viz. www.bseindia.com and Company's

website www.suyogtelematics.co.in 3) The above results were reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meeting held on

For Suyog Telematics Limited

Place: Mumbai Date: February 09, 2021

February 09, 2021.

Shivshankar Lature Managing Director DIN: 02090972



CIN: L34103DL1981PLC011375

Regd. Off.: Plot No.1, Nelson Mandela Road, Vasant Kunj, New Delhi-110070 Ph.: +91 (11) 46781000, Fax: +91 (11) 46150275 www.marutisuzuki.com, investor@maruti.co.in

NOTICE OF POSTAL BALLOT/E-VOTING

Members are hereby informed that pursuant to the provisions of Section 108, Section 11 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 (the "Act") read with Rule 20 and Rule 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (the "Rules"), and in accordance with the guidelines prescribed and relevant circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs (the "MCA") for holding general meetings / conducting posta ballot through e-voting, the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements Regulations, 2015 (the "Listing Regulations"), Secretarial Standard-2 issued by the Institute of Company Secretaries of India and other applicable laws and regulations, if any, including any statutory modification(s) or re-enactment(s) thereto for the time being in force, the Company has completed dispatch of Postal Ballot Notice dated 28th January, 2021 (the"Notice") along with Explanatory Statement, on 09th February, 2021 only through electronic mode to all those Members who have registered their email address with their Depository Participant(s) (the "DPs") or with KFin Technologies Private Limited, the Registrars and Share Transfer Agen

of the Company ("KFIN") as on 511 February, 2021 (the "Cut-off Date"). Due to the outbreak of COVID-19 Pandemic, MCA has permitted companies to conduct the Postal Ballot by sending the Notice in electronic form only. Accordingly, physical copy of the Notice along with Postal Ballot Form and pre-paid business reply envelope will not be sent to

the Members for this Postal Ballot. Members are hereby informed that:

- (a) The resolution pertaining to "Alteration of the Object Clause of the Memorandum of Association of the Company" as set out in the Notice is to be transacted through Postal Ballot by voting through electronic means only ("remote e-voting") through remote e-voting
- platform provided by KFIN. (b) The remote e-voting period commences on Monday, the 15th February 2021 (9:00 A.M.) (c) The remote e-voting period ends on Tuesday, the 16th March, 2021 (5:00 P.M.) The
- remote e-voting facility shall be forthwith disabled by KFIN after expiry of the said period (d) During this period, only those Members whose names appear in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories, as on the Cutoff Date i.e. Friday, the 5th February, 2021, shall be entitled to cast their vote through remote e-voting.
- A person who is not a Member of the Company as on the said cut-off date, will not be entitled to vote and should treat this Notice, for information purpose only.
- (e) In case of any query/grievance regarding remote e-voting, Members are requested to write to einward.ris@kfintech.com or evoting@kfintech.com or contact KFIN at below

Mr. Raj Kumar Kale , Senior Manager, KFin Technologies Private Limited, Tower- B, Plot

- 31-32, Selenium Building, Financial District, Nanakramguda, Gachibowli, Hyderabad 500032, Phone No. 040- 67162222 or at toll free no. 1-800-34-54-001 Members holding shares in electronic form are requested to update their email address and
- mobile number with their respective DPs. Members can also temporarily update their email address and mobile number with KFIN, by following the procedure given below:
- (i) Visit the link https://ris.kfintech.com/clientservices/postalballot/ (ii) Select the Company name: Maruti Suzuki India Limited
- (ii) Enter DPID Client ID (in case shares are held in electronic form)/Physical Folio No. (in case shares are held in physical form) and Permanent Account Number ("PAN").
- (iv) In case of shares which are held in physical form, if PAN is not available in the records. please enter any one of the Share Certificate No. in respect of the shares held by you (v) Enter the email address and mobile number.
- (vi) System will check the authenticity of the DPID Client ID/Physical Folio No. and PAN
- Certificate No., as the case may be and send the OTPs to the said mobile number and
- email address, for validation
- (vii) Enter the OTPs received by SMS and Email to complete the validation process. (Please note that the OTPs will be valid for 5 minutes only).
- (viii) In case the shares are held in physical form and PAN is not available, the system will prompt you to upload the self-attested copy of your PAN. (ix) System will confirm the email address for the limited purpose of serving the Notice and the
- (x) Alternatively, Members may send an email request to einward.ris@kfintech.com along with the scanned copy of their request letter duly signed by the I'm member, providing the email address, mobile number, self-attested copy of PAN and Client Master copy in case

remote e-voting instructions along with the User ID and Password.

shares are held in electronic form or copy of the share certificate in case shares are held in physical form, to enable KFIN to temporarily register their email address and mobile number so as to enable to issue the Notice and the remote e-voting instructions along with the User ID and Password, through electronic mode. The Notice is available on the Company's website i.e. www.marutisuzuki.com: KFIN a

https://evoting.kfintech.com; National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com and BSE Limited at www.bseindia.com. The Result(s) in respect of the resolution as set out in the Notice, so declared, along with the

Scrutinizer's Report will be communicated to the Stock Exchanges, on or before Thursday, the 18th March, 2021 and will be uploaded on the website of the Company i.e. www.marutisuzuki.com and of KFIN i.e. https://evoting.kfintech.com/public/Downloads.aspx. The said Results will also be displayed at the Registered and Corporate Office of the Company For Maruti Suzuki India Limited

New Delhi 09th February, 2021

Sanjeev Grover Vice President & Company Secretary

PVP VENTURES LIMITED

Reg Off: D. No. 2, 9th Floor, KRM Centre, Harrington Road, Chetpet, Chennai-600031; Web: www.pvpglobal.com; Email: investorrelations@pvpglobal.com; Tel: 044 30285570 CIN: L72300TN1991PLC20122

EXTRACT OF UNAUDITED STANDALONE and CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS

FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31ST DECEMBER, 2020 (as per format of Newspaper Publishing Purpose of Regulation 33 of SEBI Listing Regulations, 2015) Rs in lacs

		STANDALONE			CONSOLIDATED			
SI. No.		Quarter ended 31.12.2020 Unaudited	Unaudited	ended 31.12.2019 Unaudited	71	Unaudited	ended 31.12.2019 Unaudited	
1	Total income from operations (net)	913.77	1,353.90	618.51	920.20	1,377.49	682.54	
2	Net Profit / (Loss) for the period (before tax and exceptional items)	76.53	(1,094.06)	(338.85)	(1,935.71)	(6,418.45)	(2,773.85)	
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after exceptional items)		(1,094.06)	(338.85)	(1,935.71)	(6,418.45)	(2,773.85)	
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after exceptional items)	(128.64)	(1,357.43)	(338.85)	(2,140.88)	(6,681.82)	(2,773.85)	
5	Total comprehensive Income for the period (Comprising profit/(loss) for the period (after tax) and their comprehensive income (after tax))	I ' 'I	(1,357.43)	(338.85)	(2,140.88)	(6,681.82)	(2,773.85)	
6	Equity Share Capital (Face value of Rs. 10 each)	24,505.27	24,505.27	24,505.27	24,505.27	24,505.27	24,505.27	
7	Earnings Per Share (not annualised) of Rs. 10 each/-							
	Basic	(0.05)	(0.55)	(0.14)	(0.87)	(2.73)	(1.13)	
	Diluted	(0.05)	(0.55)	(0.14)	(0.87)	(2.73)	(1.13)	
NO	TES:	0.	.01	500	10	.30		
	. The colored was explicated by a color was decided		۱ الا الم	!!!! I !!	4! 1 1.1	Otl- E-I-		

The above results have been reviewed by the Audit Committee at its meeting held on 9th Febraury, 2021 and approved by the Board of Directors at its meeting held on even date. The above quarterly results have also been reviewed by the statutory auditors.

The above is an extract of the detailed format of Standalone financial results for the guarter and nine months ended 31st December, 2020 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Exchange websites www.bseindia.com, www.nseindia.com and on the company's website www.pvpglobal.com. For and on behalf of the Board of Directors Sd/-

Prasad V. Potluri Place: Hyderabad Chairman & Managing Director Date : February 09, 2021

PICTUREHOUSE MEDIA LIMITED

Reg Off: D. No. 2, 9th Floor, KRM Centre, Harrington Road, Chetpet, Chennai-600031; Web: www.pvpcinema.com; Email: ir.telephoto@pvpglobal.com; Tel: 044 30285570 CIN:L92191TN2000PLC044077

EXTRACT OF UNAUDITED STANDALONE and CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31ST DECEMBER, 2020

(as per format of Newspaper Publishing Purpose of Regulation 33 of SEBI Listing Regulations, 2015)

		STANDALONE CONSOLIDATE					ED
SI. No.	PARTICULARS	Quarter ended 31.12.2020 Unaudited		Quarter ended 31.12.2019 Unaudited	ended 31.12.2020		ended
1	Total income from operations (net)	0.31	5.13	62.15	0.31	5.13	60.6
2	Net Profit / (Loss) for the period (before tax, exceptional items)	(252.51)	(745.95)	(244.29)	(1,461.59)	(4,238.82)	(2,396.62
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after exceptional items)	(252.51)	(745.95)	(244.29)	(1,461.59)	(4,238.82)	(2,396.62
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax(after exceptional items)	(252.51)	(745.95)	(244.29)	(1,461.59)	(4,238.82)	(2,396.62
5	Total comprehensive Income for the period (Comprising profit/(loss) for the period (after tax) and their comprehensive income (after tax))		(745.95)	(244.29)	(1,461.59)	(4,238.82)	(2,396.62
6	Equity Share Capital (Face value of Rs. 10 each)	5,225.00	5,225.00	5,225.00	5,225.00	5,225.00	5,225.00
7	Earnings Per Share (not annualised) of Rs. 10 each/-						
	Basic	(0.48)	(1.43)	(0.47)	(2.80)	(8.11)	(4.59
	Diluted	(0.48)	(1.43)	(0.47)	(2.80)	(8.11)	(4.59

- The above results have been reviewed by the Audit Committee at its meeting held on 9th February, 2021 and approved by the Board of Directors at its meeting held on even date. The above quarterly results have also been reviewed by the statutory auditors.
- The above is an extract of the detailed format of Standalone financial results for the guarter and nine months ended 31st December, 2020 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financia Results are available on the Exchange websites www.bseindia.com and on the company's website www.pvpcinema.com. For and on behalf of the Board of Directors

Place: Hyderabad Date: February 9, 2021 Prasad V. Potluri **Managing Director**



LIC Mutual Fund Asset Management Limited (Investment Managers to LIC Mutual Fund)

CIN No: U67190MH1994PLC077858

Registered Office: Industrial Assurance Bldg. 4th Floor, Opp. Churchgate Station, Mumbai - 400 020 Tel. No.: 022-66016000, Toll Free No.: 1800 258 5678, Fax No.: 022-22835606 Email: service@licmf.com • Website: www.licmf.com

NOTICE-CUM-ADDENDUM No. 40 of 2020-2021

Notice cum Addendum to the Scheme Information Document (SID) and Key Information Memorandum (KIM) of LIC MF Debt Hybrid Fund ('the Scheme')

Change in Risk-o-meter of the Scheme of LIC Mutual Fund ("the Fund")

Pursuant to Securities and Exchange Board of India (SEBI) circular no. SEBI/HO/IMD/DF3/CIR/P/2020/197 dated October 05, 2020, regarding Product Labeling in Mutual Fund Schemes - Risk-o-meter, the risk profiling of the Scheme of the Fund stands modified. Investors are requested to note the following change in Risk-o-meter

The change in riskometer is effective from 1st February 2021:-

in the SID and KIM of the Scheme:

	Risk-o-meter as on December 31, 2020	Risk-o-meter as on January 31, 2021 The product is suitable for investors who are seeking*		
Scheme Name	The product is suitable for investors who are seeking*			
LIC MF Debt Hybrid Fund	Medium term capital appreciation with current income A fund that invests predominantly in debt instruments with marginal equity exposure. Risk – Moderately High Moderate Moderately High Low Very High Low RISKOMETER HIGH Investors understand that their preciopal will be at Bladerately High risk. Medium term capital appreciation with a significant service with the signifi	Medium term capital appreciation with current income A fund that invests predominantly in debt instruments with marginal equity exposure. Risk – Moderate Moderate Moderate Moderate High Low RISKOMETER HIGH Investors understand that their principal will be at Moderate task		

*Investors should consult their financial advisers if in doubt about whether the product is suitable for them.

The above Risk-o-meter is based on evaluation of risk level of Scheme's portfolio as on last day of the given

Unitholders are requested to note that there is no change in riskometer of other schemes of the Fund and the change in Risk-o-meter will be evaluated on a monthly basis.

Any change in Risk-o-meter will be communicated by way of Notice-cum-addendum and by email or SMS to unitholders of that particular scheme.

This notice cum addendum will form an integral part of the SID and KIM of the Scheme of the Fund. All other terms and conditions of the Scheme will remain unchanged.

For LIC MUTUAL FUND ASSET MANAGEMENT LIMITED

Date: 09/02/2021 Place: Mumbai Authorized Signatory

As part of Go-Green initiative, investors are encouraged to register/update their email ID and Mobile Number with us to support paper-less communication. Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

MIRAE ASSE


Mutual Fund

NOTICE CUM ADDENDUM NO. AD/3/2021

THIS NOTICE CUM ADDENDUM SETS OUT THE CHANGES TO BE MADE IN THE SCHEME INFORMATION DOCUMENT ("SID") AND KEY INFORMATION MEMORANDUM ("KIM") OF CERTAIN SCHEMES OF MIRAE ASSET MUTUAL FUND ("MAMF")

Change in Risk-o-meter in certain schemes of MAMF

NOTICE is hereby given to the investors / unitholders that in accordance with SEBI Circular no. SEBI/HO/ IMD/DF3/CIR/P/2020/197 dated October 05, 2020, there shall be a change in the risk-o-meter of below mentioned schemes of MAMF based on the portfolio of January 31, 2021:



the changes as stated above.

This notice cum addendum forms an integral part of SIDs and KIMs of the Scheme(s) of MAMF, as

amended from time to time. All the other terms and conditions of SIDs and KIMs of the Scheme(s) will remain unchanged. For and on behalf of the Board of Directors of

MIRAE ASSET INVESTMENT MANAGERS (INDIA) PVT. LTD. (Asset Management Company for Mirae Asset Mutual Fund)

ALBERT

Year

Place: Mumbai Date: February 09, 2021 **AUTHORISED SIGNATORY** MIRAE ASSET MUTUAL FUND (Investment Manager: Mirae Asset Investment Managers (India)

Private Limited) (CIN: U65990MH2019PTC324625). Registered & Corporate Office: 606, Windsor, Off CST Road, Kalina, Santacruz (E), Mumbai - 400098 ■ 1800 2090 777 (Toll free),

□ customercare@miraeasset.com

□ www.miraeassetmf.co.in

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.



ALBERT DAVID LIMITED

Regd. Office: 'D' Block, 3rd Floor, Gillander House, Netaji Subhas Road, Kolkata - 700 001 (Corporate Identity No.: L51109WB1938PLC009490) Tel: 033-2262-8436/8456/8492, 2230-2330, Fax: 033-2262-8439

Email: adidavid@dataone.in, Website: www.albertdavidindia.com EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED ON 31ST DECEMBER, 2020 (Rs. in Lacs) 3 months 3 months 9 months 9 months SI. No. ended on ended on ended on ended on ended on Particulars

140,			31-12-2019 (Unaudited)			31-03-2020 (Audited)
1	Total Income from Operations	7018.26	8250.04	20340.81	26705.85	32790.59
2	Net Profit(+)/Loss(-) for the period from operations (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	834.79	759.44	1859.14	3263.01	2895.44
3	Net Profit(+)/Loss(-) for the period from operations before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	834.79	759.44	1859.14	3263.01	2895.44
4	Net Profit(+)/Loss(-) for the period from operations (after Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	611.94	525.24	1485.08	2246.62	1916.86
5	Total Comprehensive Income for the period [comprising Profit/Loss for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)]	592.29	504.03	1386.22	2417.56	2129.66
6	Paid-up Equity Share Capital (Face Value of Rs.10/- each)	570.72	570.72	570.72	570.72	570.72
7	Other Equity	- 68	-		*	21709.07
8	Earning Per Share (of Rs.10/- each) from operations					
	Basic (Rs.) ;	10.72	9.20	26.02	39.36	33.59
	Diluted (Rs.) :	10.72	9.20	26.02	39.36	33.59

- 1) The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchanges website (www.bseindia.com), (www.nseindia.com) and Company's website at (www.albertdavidindia.com).
- The above Unaudited Financial Results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meetings held on 9th February, 2021 apart from being subjected to Limited Review for the guarter and nine months ended 31st December, 2020 by the Statutory Auditors, as required under Regulation 33 of SEBI (LO&DR) Regulations, 2015.
- The Statutory Auditors of the Company have issued an unmodified review report on the Unaudited Financial Results for the guarter and nine months ended 31st December, 2020.
- The outbreak of COVID-19 and consequent imposition of national lockdown by the Government seriously affected the economic activities and operational performance of the Company. Based on the contemporary indicators of future economic conditions evaluated by the management, the carrying amounts of the assets were expected to be recovered albeit subject to possible material changes subsequently for which the final impact on Company's assets might differ from that estimated at the date of financial result. The performance of the period are not comparable with the previous corresponding period due to reason stated above.

However, situation tending towards stabilisation as prima facie appears to be, normalisation in operating condition does not seem to be far off.

In pursuance to announcement of Government of India through Taxation Laws (Amendment) Ordinance,

- 2019, the Company has opted for payment of tax as per section 115BAA of the Income Tax Act, 1961 with effect from financial year 2019-2020. 6) Rise during the quarter in Other Income is, inter alia, attributed to appreciation of Rs.396.80 Lakhs in
- fair value of current investments in mutual fund.
- The Company is engaged in the manufacturing of pharmaceuticals and has only one reportable segment in accordance with Ind AS-108 "Operating Segments".
- Emphasis has been laid to gear up sales for which a separate division has been set-up involving additional expenditure and also establishment of a Marketing & Sales Office at Mumbai, the pharmaceutical hub of the sub-continent. However, the endeavour of the management has been subjected to significant hinderance during last three quarters on account of situation discussed in '4' above.

For Albert David Limited (T. S. Parmar) Managing Director & CEO (DIN: 05118311)

Place: Kolkata Date: 9th February, 2021

